



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 अग्रहायण 1936 (श0)
(सं0 पटना 1002) पटना, सोमवार, 8 दिसम्बर 2014

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचना

5 दिसम्बर 2014

सं0 15/छोआ-नीति-15/2012 संख्या-3599—बिहार सुषव (मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1994 के नियम-3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी (चीनी मिल से सम्बद्ध आसवनी द्वारा Captive Molasses से उत्पादित सुषव को छोड़कर) उत्पाद प्रपत्र-27 एवं 27-क में प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारकों को देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के निर्माण के निमित्त आपूरित किये जाने वाले संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड-1 का अधिकतम बिक्री मूल्य बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित क्रमशः रुपया 28.00 (अठाईस रुपये) एवं 28.80 (अठाईस रुपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर को परिवर्तित कर क्रमशः (वाणिज्य-कर छोड़कर) रुपया 35.00 (पैंतीस रुपये) एवं 35.80 (पैंतीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

2. कड़िका-1 में वर्णित आसवनी द्वारा Captive Molasses से उत्पादित सुषव (जिसमें परिवहन व्यय के बदले हथालन व्यय अनुमान्य किया गया है) के लिए (वाणिज्य-कर छोड़कर) संशोधित सुषव का मूल्य रुपया 31.70 (इक्कीस रुपये सत्तर पैसे) एवं संशोधित सुषव ग्रेड-1 का मूल्य रुपया 32.50 (बत्तीस रुपये पचास पैसे) निर्धारित किया जाता है।

3. राज्य में छोआ से उत्पादित सुषव तैयार करने वाले समस्त इकाईयों के लिए राज्य में मूल्य व्यवस्थापन (Price Management) करते हुए एक समान मूल्य का विनिर्धारण एवं विनियमन (Fixation and Regulation) आदेश प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत किया जायगा।

4. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

राजस्व पर्षद बिहार के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1002-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>